



INDIAN SCHOOL AL WADI AL KABIR

SYLLABUS FOR THE MONTH OF OCTOBER, 2023

CLASS – V

WEEK SUBJECT	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4
ENGLISH	CB CHAPTER 4 - Trapped LANGUAGE STRUCTURE - Simple & Progressive Tenses CREATIVE WRITING - Notice Writing	CB CHAPTER 4 - Trapped LANGUAGE STRUCTURE- Perfect Tenses CREATIVE WRITING - Notice Writing	CB CHAPTER 7- Awareness About Our Environment LANGUAGE STRUCTURE- Perfect Tenses CREATIVE WRITING - Reading Comprehension	CB CHAPTER 7- Awareness About Our Environment LANGUAGE STRUCTURE - Perfect Tenses ACTIVITY- Aural Comprehension
HINDI	पाठ-4 स्वास्थ्य की खिचड़ी चित्र,सुलेख पर्यायवाची,विलोम पाठ्यपुस्तक- अभ्यासकार्य	पाठ-4 स्वास्थ्य की खिचड़ी शब्दार्थ वाक्य-रचना लिंग वचन	पाठ-4 स्वास्थ्य की खिचड़ी प्रश्न-उत्तर क्रिया पाठ्यपुस्तक- अभ्यासकार्य	पाठ-4 स्वास्थ्य की खिचड़ी कहानी-लेखन अर्थग्रहण
MATHEMATICS	<ul style="list-style-type: none"> • CHAPTER-8: GEOMETRY 	<ul style="list-style-type: none"> • CHAPTER-8: GEOMETRY 	<ul style="list-style-type: none"> • CHAPTER-5: FRACTIONS 	<ul style="list-style-type: none"> • CHAPTER-5: FRACTIONS
EVS	<ul style="list-style-type: none"> • Water - A Wonderful Liquid 	<ul style="list-style-type: none"> • Searching for Food 	<ul style="list-style-type: none"> • Searching for Food 	<ul style="list-style-type: none"> • Food and Digestion
COMPUTER SCIENCE	<ul style="list-style-type: none"> • Unit 4 – Powerpoint • Creating presentation -Introduction -themes and Template -Formatting of text -Adding Online 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit 4 – Powerpoint • Creating presentation - changing slide layout - slide transition - adding animation • Effect 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit 4 – Powerpoint • Creating presentation - Adding Table - Adding a Chart - adding a SmartArt - Adding media clip 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit 4 – Powerpoint - Creating presentation • Textual exercises

	<ul style="list-style-type: none"> • picture 	<ul style="list-style-type: none"> • Running a presentation 	<ul style="list-style-type: none"> - print and Save • presentation 	
PHYSICAL EDUCATION	<ul style="list-style-type: none"> • Sports Day selection trials and practice • Rules and Regulation of various games • Briefing of cluster games 	<ul style="list-style-type: none"> • Sports Day selection trials and practice • Rules and Regulation of various games • Briefing of cluster games 	<ul style="list-style-type: none"> • Sports Day selection trials and practice • Rules and Regulation of various games • Briefing of cluster games 	<ul style="list-style-type: none"> • Sports Day selection trials and practice • Rules and Regulation of various games • Briefing of cluster games
ART	<ul style="list-style-type: none"> • Drawing and colouring Fruit Basket 	<ul style="list-style-type: none"> • Drawing and colouring Fruit Basket 	<ul style="list-style-type: none"> • Drawing & Colouring Diwali Scene 	<ul style="list-style-type: none"> • Drawing & Colouring Diwali Scene
MUSIC	<ul style="list-style-type: none"> • Singing Competition song 	<ul style="list-style-type: none"> • Singing Competition song • Basic musical instruments and their sounds 	<ul style="list-style-type: none"> • Phrasing • Creating a practice routine • Imagery-listening, visualizing and expressing activity 	<ul style="list-style-type: none"> • Breathing exercise & support exercise • Draw what you hear
DANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Gandhi Jayanti Special Dance 	<ul style="list-style-type: none"> • Difference and types of classical and western dance forms (one song with 2 different styles) 	<ul style="list-style-type: none"> • Exploring basic western dance foot steps 	<ul style="list-style-type: none"> • Exploring basic western dance foot steps
YOGA	<ul style="list-style-type: none"> • Anuloma Viloma Pranayam 	<ul style="list-style-type: none"> • Guided Meditation 	<ul style="list-style-type: none"> • Balancing asana: • Kakasana, Virabhadrasana - 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Natarajasana, • Firefly Pose
AEROBICS	<ul style="list-style-type: none"> • Zumba Fitness Warm Up 	<ul style="list-style-type: none"> • Zumba Dance Exercise I 	<ul style="list-style-type: none"> • Zumba Dance Exercise Ii 	<ul style="list-style-type: none"> • Zumba Dance Exercise Routine